

पं. नीलकण्ठ तिवारी

(अंतिम कविताएँ)



सत्यमय


८११०८  
नील/स-२

र्य

# सत्यमेव जयते

(इन्द्रधनुष' (1939) और 'भावना के फूल' (1954) के  
बाद कवि का अंतिम कविता-संग्रह)

पं. नीलकण्ठ तिवारी



जीवन प्रभात प्रकाशन

बम्बई-400063

मूल्य : 40 रुपये